



Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart
GERMANY

www.bosch-pt.com

1 609 92A 40C (2017.11) T / 11



1 609 92A 40C

GHG 180 Professional






en Original instructions

hi मूल ऑपरेटिंग निर्देश









English Page 5
हिंदी पृष्ठ 8





4 |



English

Safety Notes



Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

- ▶ **This heat gun is not intended for use by children and persons with physical, sensory or mental limitations or a lack of experience or knowledge.**

This heat gun can be used by children aged 8 or older and by persons who have physical, sensory or mental limitations or a lack of experience or knowledge if a person responsible for their safety supervises them or has instructed them in the safe operation of the heat gun and they understand the associated dangers. Otherwise, there is a risk of operating errors and injuries.

- ▶ **Supervise children during use, cleaning and maintenance.** This will ensure that children do not play with the heat gun.
- ▶ **Be careful when working with the power tool.** The power tool produces intense heat which can lead to increased danger of fire and explosion.
- ▶ **Exercise special care when working close to inflammable materials.** The hot air jet or the hot nozzle can ignite dust or gases.
- ▶ **Do not operate or work with the power tool in areas where there is danger of explosion.**
- ▶ **Never direct the hot air jet at the same position for longer periods.** Easily inflammable gases can develop e.g., when working plastic, paint, varnish or similar materials.
- ▶ **Be aware that heat can be conducted to hidden covered materials and can ignite them.**
- ▶ **Safely place the power tool on the storage surfaces after use and let it cool completely before packing it away.** The hot nozzle can cause damage.
- ▶ **Do not leave the switched-on power tool unattended.**

- ▶ **Store idle power tools out of the reach of children. Do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
- ▶ **Do not expose the power tool to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- ▶ **Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts.** Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- ▶ **Always wear safety goggles.** Safety goggles will reduce the risk of injuries.
- ▶ **Disconnect the plug from the socket outlet before making any adjustments, changing accessories, or placing the power tool aside.** This safety measure prevents unintentional starting of the power tool.
- ▶ **Check the power tool, cord and plug each time before use. Do not use the power tool if damage is determined. Do not open the power tool yourself and have it serviced only by a qualified repair person using only original spare parts.** Damaged power tools, cords and plugs increase the risk of electric shock.



Provide for good ventilation of your working place. Gas and vapour developing during working are often harmful to one's health.

- ▶ **Wear safety gloves and do not touch the hot nozzle.** Danger of burning.
- ▶ **Never direct the hot air jet against persons or animals.**
- ▶ **Do not use the power tool as a hairdryer.** The hot air being blown out is significantly hotter than that from a hairdryer.
- ▶ **When operating the power tool in damp environments is unavoidable, use a residual current device (RCD).** The use of a residual current device (RCD) reduces the risk of an electric shock.
- ▶ **Never use the machine with a damaged cable. Do not touch the damaged cable and pull the mains plug when the cable is damaged while working.** Damaged cables increase the risk of an electric shock.
- ▶ **Do not allow foreign objects to enter the power tool.**
- ▶ **The distance between the nozzle and the workpiece depends on the material you are working on (metal, plastic etc.) and the intended working method.** Always test the amount of air and temperature first.
- ▶ **Products sold in GB only:** Your product is fitted with a BS 1363/A approved electric plug with internal fuse (ASTA approved to BS 1362). If the plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate plug fitted in its place by an authorised customer service agent. The replacement plug should have the same fuse rating as the original plug. The severed plug must be disposed of to avoid a possible shock hazard and should never be inserted into a mains socket elsewhere.

6 | English

Product Description and Specifications

Intended Use

The power tool is intended for the forming and welding of plastic, removal of paint and the warming of heat-shrinkable tubing. It is also suitable for soldering and tinning, loosening of adhesive joints and the defrosting of water lines.

Product Features

The numbering of the product features refers to the illustration of the machine on the graphics page.

- 1 Standing surface
- 2 On/off switch and power settings
- 3 Nozzle
- 4 Heat protection collar
- 5 Glass protection nozzle*
- 6 Reduction nozzle*

*Accessories shown or described are not part of the standard delivery scope of the product. A complete overview of accessories can be found in our accessories program.

Technical Data

Heat Gun		GHG 180
Article number		3 601 J4D 0..
Rated power input	W	1 800
Air flow	l/min	350/350/550
Temperature at the nozzle outlet*	°C	60/350/550
Temperature measurement accuracy		± 15 %
Weight according to EPTA-Procedure 01:2014	kg	0.75
Protection class		□/II

* At an ambient temperature of approx. 20 °C.

The values given are valid for a nominal voltage [U] of 230 V. For different voltages and models for specific countries, these values can vary.

Operation

Starting Operation

- ▶ **Observe the mains voltage!** The voltage of the power source must correspond with the data on the type plate of the machine.

Creation of smoke during initial use

A coating protects the metal surfaces from corrosion ex-works. This protective layer evaporates during initial use.

Switching On

Slide the on/off switch **2** upwards.

Thermal-protection shut-off: In case of overheating (e.g. due to air build-up), the power tool automatically shuts off the heating system, but the blower will continue to run. When the power tool has cooled down to the operating temperature, the heating system is automatically switched on again.

Switching Off

Slide the on/off switch **2** downwards into the **0** position.

- ▶ **After working at high temperatures for a prolonged period, let the power tool cool down before switching it off. To do this, allow it to run on the lowest temperature setting for a short while.**

Selecting a power setting

You can choose between different power settings using the on/off switch **2**:

Power setting	°C	l/min
I	60	350
II	350	350
III	550	550

The **I** power setting is suitable for cooling down a heated workpiece or for drying paint. It is also suitable for cooling down the power tool before putting it down or changing the attachment nozzles.

Working Advice

- ▶ **Before any work on the machine itself, pull the mains plug.**

Note: Do not apply the nozzle **3** too close to the workpiece being worked. The hot air build-up can lead to overheating of the power tool.

Placing Down the Power Tool

To cool down the power tool or have both hands free, place it down on the standing surface **1**.

- ▶ **Be especially careful when working with the placed down power tool!** There is danger of burning oneself on the hot nozzle or on the hot air jet.

Work Examples (see figures A – B)

The figures of the application examples can be found on the graphics pages.

The distance between the nozzle and the workpiece depends on the material you are working on (metal, plastic, etc.) and the intended working method.

The optimum temperature for each application can be determined by a practical test.

Always test the amount of air and temperature first. Start at a greater distance and a lower power setting. Then adjust the distance and power setting according to requirements.

If you are unsure what material you are working on or what effect the hot air gun might have on it, first test the effect on a concealed area.

All application examples can be performed without accessories except for "Strip paint from window frames". However, the use of recommended accessories simplifies the work and significantly improves the quality of the result.

- ▶ **Be careful when changing the nozzle! Do not touch the hot nozzle. Allow the power tool to cool down and wear protective gloves while changing the nozzle.** Danger of burning oneself on the hot nozzle.

To speed up the cooling, the power tool can also be operated for a short period with the lowest adjustable temperature.

Strip paint from window frames (see figure A)

- **Use of the glass protection nozzle 5 (accessory) is essential.** Danger of glass breaking.

On profiled surfaces, varnish can be removed using an appropriately fitting spatula and brushed off with a soft wire brush.

Soft Soldering (see figure B)

Fit the reduction nozzle **6** (accessories).

If solder without flux is used, apply soldering grease or paste to the location to be soldered. Warm the location to be soldered for 50 – 120 seconds depending on the material. Apply the solder. The solder must melt from the workpiece temperature. After the soldered location has cooled, remove the flux.

Disposal

The machine, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling.



Do not dispose of power tools into household waste!

Subject to change without notice.

Maintenance and Service**Maintenance and Cleaning**

- **Before any work on the machine itself, pull the mains plug.**
- **For safe and proper working, always keep the machine and ventilation slots clean.**

If the replacement of the supply cord is necessary, this has to be done by Bosch or an authorized Bosch service agent in order to avoid a safety hazard.

After-sales Service and Application Service

Our after-sales service responds to your questions concerning maintenance and repair of your product as well as spare parts. Exploded views and information on spare parts can also be found under:

www.bosch-pt.com

Bosch's application service team will gladly answer questions concerning our products and their accessories.

In all correspondence and spare parts orders, please always include the 10-digit article number given on the nameplate of the product.

India


Bosch Service Center
69, Habibullah Road, (Next to PSBB School), T. Nagar
Chennai – 600077
Phone: (044) 64561816

Bosch Service Center Rishyamook
85A, Panchkuin Road
New Delhi – 110001
Phone: (011) 43166190

Bosch Service Center
79, Crystal Bldg., Dr. Annie Besant Road, Worli
Mumbai – 400018
Phone: (022) 39569936 / (022) 39569959 /
(022) 39569967 / (022) 24952071

हिंदी

सुरक्षा निर्देश



सभी सुरक्षा निर्देश तथा सूचनाओं को पढ़ें। सुरक्षा चेतावनियाँ और सभी निर्देशों के अनुपालन में विफलताओं के कारण हो सकते हैं विजली के झटके, आग और गंभीर चोट।

- ▶ इस हीट गन को बच्चों और सीमित शारीरिक, संवेदी अथवा मानसिक क्षमताओं वाले व्यक्तियों या फिर कम अनुभव अथवा जानकारी वाले व्यक्तियों द्वारा इस्तेमाल करने के लिए निर्धारित नहीं किया गया है। इस हीट गन का इस्तेमाल 8 साल से ऊपर के बच्चों और सीमित शारीरिक, संवेदी अथवा मानसिक क्षमताओं वाले व्यक्तियों या फिर कम अनुभव अथवा जानकारी वाले व्यक्तियों द्वारा तब किया जा सकता है जब उनकी सुरक्षा के लिए एक जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा उनकी निगरानी की जा रही हो या जब उन्हें इस व्यक्ति द्वारा एक सुरक्षित परिवेश में हीट गन के बारे में प्रशिक्षित किया जा रहा और वे इससे जुड़े हुए खतरों को समझते हों। अन्य परिस्थितियों में गलत तरीके से चलाने और चोट लगने का खतरा है।
- ▶ उपयोग, सफाई और रखरखाव के दौरान बच्चों का ध्यान रखें। इस तरह यह सुनिश्चित किया जाता है कि बच्चे हीट गन से नहीं खेलेंगे।
- ▶ विद्युत उपकरण के प्रति सावधानी बरतें। यह विद्युत उपकरण बहुत अधिक गर्मी उत्पन्न करता है, जिससे आग लगने और विस्फोट होने का खतरा उत्पन्न हो सकता है।
- ▶ ज्वलनशील पदार्थों के पास काम करते समय खास तौर पर सावधानी बरतें। गर्म वायु प्रवाह अथवा गर्म नॉज़ल पाउडर अथवा गैस को जला सकते हैं।

- ▶ विद्युत उपकरण के साथ किसी ऐसे परिवेश में कार्य नहीं करें जहाँ पर विस्फोट होने का खतरा हो।
- ▶ गर्म हवा के प्रवाह को लंबे समय के लिए और एक ही जगह पर नहीं रखें। प्लास्टिक, पेंट, वार्निश और समान पदार्थों पर काम करते समय अति ज्वलनशील गैसों उत्पन्न हो सकती हैं।
- ▶ कृपया ध्यान दें कि ऊष्मा का प्रवाह ढंके हुए ज्वलनशील पदार्थों में होता है और यह इन्हें जला सकती है।
- ▶ उपयोग के बाद विद्युत उपकरण को सुरक्षित स्थान पर रख दें और पैक करने से पहले इसे पूरी तरह ठण्डा हो जाने दें। गरम नॉज़ल से जोखिम पैदा हो सकता है।
- ▶ चालू विद्युत उपकरण को बिना निगरानी के नहीं छोड़ें।
- ▶ प्रयोग नहीं किए जा रहे विद्युत उपकरणों को बच्चों की पहुंच से दूर रखें। ऐसे व्यक्तियों को विद्युत उपकरण का इस्तेमाल नहीं करने दें जो इसके बारे में नहीं जानते हैं अथवा जिन्होंने इन निर्देशों को नहीं पढ़ा है। अनुभवहीन व्यक्तियों द्वारा विद्युत उपकरणों का इस्तेमाल जोखिम भरा है।
- ▶ विद्युत उपकरण को बारिश और नमी से दूर रखें। विद्युत उपकरण में पानी जाने से विजली के झटके का खतरा बढ़ जाता है।
- ▶ केबल के द्वारा विद्युत उपकरण को ले जाने, टांगने, अथवा प्लग को सॉकेट से खींचने जैसे दुरुपयोगों से बचें। केबल को गर्मी, तेल, पैसे कोनों अथवा उपकरण के गतिशील हिस्सों से दूर रखें। खराब अथवा उलझे केबल से विजली का झटका लगने का खतरा बढ़ता है।
- ▶ हमेशा सुरक्षा चश्मा पहनें। सुरक्षा चश्मा चोट लगने का खतरा कम करता है।
- ▶ उपकरण की सेटिंग बदलने, इसके हिस्सों को बदलने अथवा विद्युत उपकरण को अलग रखने से पहले प्लग को सॉकेट से निकाल दें। यह एहतियाती कदम अनजाने में विद्युत उपकरण का चलना रोकता है।
- ▶ हर बार इस्तेमाल से पहले विद्युत उपकरण, केबल और प्लग की जांच कर लें। यदि आपको कोई टूट-फूट दिखाई देती है तो विद्युत उपकरण का इस्तेमाल नहीं करें। विद्युत उपकरण को खुद से नहीं खोलें और इसकी मरम्मत केवल योग्य विशेषज्ञों द्वारा कराएं और मरम्मत में केवल असली स्पेयर पार्ट्स का उपयोग करें। खराब विद्युत उपकरण, केबल और प्लग से विजली का झटका लगने का खतरा बढ़ता है।



कृपया कार्य करने की जगह पर अच्छे से वायु प्रवाह कर लें। कार्य के समय उत्पन्न होने वाली गैसों और भाप अक्सर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं।

- ▶ सुरक्षा दस्ताने पहनें और गर्म नॉज़ल को नहीं छुएं। इससे जलने का खतरा है।
- ▶ गर्म हवा को लोगों अथवा जानवरों पर प्रवाहित नहीं करें।
- ▶ विद्युत उपकरण का उपयोग हेयर ड्रायर के रूप में नहीं करें। इससे निकलने वाला हवा का प्रवाह हेयर ड्रायर की तुलना में बहुत गरम होता है।

- ▶ अगर पाँवर उपकरण का उपयोग नमीयुक्त वातावरण में होना है, तो फाल्ट-करंट सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करें। रेसीड्यूल करंट सर्किट ब्रेकर के इस्तेमाल से बिजली के झटके का खतरा कम होता है।
- ▶ क्षतिग्रस्त केबल के साथ पाँवर टूल का इस्तेमाल नहीं करें। क्षतिग्रस्त केबल को नहीं छुएं और काम के दौरान अगर केबल क्षतिग्रस्त होती है तो, प्लग से अलग करें। क्षतिग्रस्त केबल बिजली के झटके का खतरा बढ़ाते हैं।
- ▶ इस बात का ध्यान रखें कि विद्युत उपकरण में कोई भी बाहरी वस्तु प्रवेश न करे।
- ▶ बर्क पीस से नॉज़ल की दूरी काम किए जाने वाले पदार्थ (धातु, प्लास्टिक आदि) और काम के इच्छित प्रकार पर निर्भर करती है। हवा की मात्रा और तापमान के लिए सदैव पहले एक टेस्ट कर लें।

उत्पादन एवं सेवा विवरण

लक्षित उद्देश्य के लिए उपयोग

विद्युत उपकरण का उपयोग प्लास्टिक को मोड़ने और जोड़ने, पेंट की कोटिंग को हटाने और हीट-थिंक ट्यूबों को गरम करने के लिए निर्धारित है। यह सोल्डरिंग और टिन कोटिंग, चिपके हुए कनेक्शनों को ढीला करने और पानी की आपूर्ति लाइनों को डिफ्रीज करने के लिए भी उपयुक्त है।

मैप किए गए घटक

उत्पाद सुविधाओं का क्रमांकन ग्राफिक्स पृष्ठ पर मशीन के चित्रण को संदर्भित करता है।

- 1 स्टोरेज सतह
- 2 चालू/ बंद करने की स्विच और प्रदर्शन स्तर
- 3 टॉपी
- 4 हीट इंसुलेशन
- 5 ग्लास प्रोटेक्टर नॉज़ल*
- 6 रिडक्शन नॉज़ल*

*सचित्र वर्णनत या सहायक उपकरण वितरण का मानक क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। आपको हमारे सर्व उपकरणों के स्पेयर पार्ट्स हमारे पुरे प्रोग्राम में प्राप्त होंगे।

तकनीकी डेटा

हीट गन	GHG 180	
वास्तु क्रमांक		3 601 J4D 0..
रेटेड इनपुट पावर	W	1800
हवा की मात्रा	l/min	350/350/550
नॉज़ल आउटलेट का तापमान*	°C	60/350/550
तापमान मापन की परिशुद्धता		± 15 %
EPTA-Procedure 01:2014 के अनुरूप वजन	kg	0.75
सुरक्षा श्रेणी		□/II

* बाहरी तापमान 20 होने पर, लगभग आंकड़े [U] के 230 V एक रेटेड वोल्टेज के लिए है। विभिन्न वोल्टेज में और देश-विशिष्ट डिजाइनों में यह प्रमाण अलग हो सकते हैं।

संचालन

कार्यान्वित करना

- ▶ **वोल्टेज नोट करें!** पाँवर स्रोत का वोल्टेज पाँवर उपकरण के सीरियल प्लेट की जानकारी से मेल खाना चाहिए।

पहली बार चलाने पर धुआं उत्पन्न होना

जंग से सुरक्षा हेतु धातु सतहों पर पहले से ही एक कोटिंग की गई है। यह सुरक्षा कोटिंग पहली बार चलाने पर वाष्प उत्पन्न करती है।

चालू करना

चालू/बंद करने की स्विच 2 को ऊपर की तरफ धकेलें।

ऊष्मा से सुरक्षा के लिए बंद होना: अत्यधिक गर्म हो जाने पर (जैसे हवा के जमा हो जाने पर) विद्युत उपकरण हीटिंग को स्वतः ही बंद कर देता है, हालांकि पंखा तब भी चालू रहता है। जब ठण्डा होकर विद्युत उपकरण संचालन के तापमान पर आ जाता है, तो हीटिंग फिर से स्वतः ही चालू हो जाती है।

बंद करना

चालू/बंद करने की स्विच 2 को नीचे की ओर पोजीशन 0 पर धकेलें।

- ▶ **लंबे समय के लिए उच्च तापमान पर काम करने पर, विद्युत उपकरण को बंद करने से पहले ठण्डा होने दें। इसके लिए इसे कुछ देर के लिए सेट किए जा सकने वाले न्यूनतम तापमान पर चलाएं।**

प्रदर्शन स्तर चुनना

चालू/बंद करने की स्विच 2 के द्वारा आप प्रदर्शन के अलग अलग स्तरों को चुन सकते हैं:

प्रदर्शन स्तर	°C	l/min
I	60	350
II	350	350
III	550	550

प्रदर्शन स्तर I एक गर्म हो गए बर्क पीस को ठण्डा करने और पेंट को सुखाने के लिए उपयुक्त है। यह विद्युत उपकरण को रखने से पहले तथा नॉज़ल बदलने से पहले ठण्डा करने के लिए भी उपयुक्त है।

कार्य निर्देश

- ▶ **सभी कार्यों से पहले पवार टूल में लगे केबल द्वारा प्लग निकले।**

सूचना: नॉज़ल 3 को काम की जा रही बर्क पीस के बहुत पास नहीं लाएं। इसकी वजह से एकत्रित हुई हवा विद्युत उपकरण को अत्यधिक गर्म कर सकती है।

विद्युत उपकरण रखना

ठण्डा होने देने के लिए और दोनों हाथों को काम से मुक्त करने के लिए विद्युत उपकरण को स्टोरेज सतह 1 पर रखें।

- ▶ **रखें गए विद्युत उपकरण साथ काम करते समय विशेष सावधानी बरतें!** आप गर्म नॉज़ल अथवा गर्म हवा के प्रवाह से जल सकते हैं।

**काम के उदाहरण (देखें चित्र A-B)**

कार्य के उदाहरण आप चित्रों वाले पेजों पर देख सकते हैं।
वर्क पीस से नॉज़ल की दूरी काम किए जाने वाले पदार्थ (धातु, प्लास्टिक आदि) और काम के इच्छित प्रकार पर निर्भर करती है।
प्रत्येक उपयोग के लिए आदर्श तापमान वास्तविक उपयोगों से पता किया जाता है।

हवा की मात्रा और तापमान के लिए सदैव पहले एक टेस्ट कर लें। अधिक दूरी और निचले प्रदर्शन स्तर के साथ शुरुआत करें। इसके बाद आवश्यकता के अनुसार दूरी और प्रदर्शन स्तर को तय करें।

यदि आप आश्चर्य नहीं हैं कि आप किस पदार्थ पर काम कर रहे हैं अथवा हीट गन का उस पदार्थ पर क्या प्रभाव होगा, तो प्रभाव की जांच एक ढकी जगह पर जांचें।

«खिड़कियों के फ्रेम से पेंट हटाना» को छोड़कर सभी कार्यों में आप सहायक उपकरणों के बिना काम कर सकते हैं। हालांकि बताए गए अतिरिक्त उपकरण काम आसान करते हैं और परिणाम की गुणवत्ता को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाते हैं।

► **नॉज़ल बदलते समय सावधानी बरतें। गर्म नॉज़ल को नहीं छुएं। विद्युत उपकरण को ठण्डा होने दें और बदलते समय सुरक्षा दस्ताने पहनें।** आप गर्म नॉज़ल से जल सकते हैं।

जल्द ठण्डा करने के लिए आप विद्युत उपकरण को कुछ देर के लिए न्यूनतम तापमान पर चला सकते हैं।

खिड़कियों के फ्रेम से पेंट हटाना (देखें चित्र A)

► **हर हाल में ग्लास प्रोटेक्टर नॉज़ल 5 का उपयोग करें (सहायक उपकरण)।** यहां पर कांच के टूटने का खतरा होता है।

ऊभरी हुई रेखाओं वाली सतहों पर बार्निश को उपयुक्त खुरपी से हटाया जा सकता है और एक मुलायम तार वाले ब्रश से ब्रश किया जा सकता है।

मुलायम सोल्डरिंग (देखें चित्र B)

रिडक्शन नॉज़ल 6 (सहायक उपकरण) को रख दें
यदि आप सोल्डर का इस्तेमाल फ्लक्स के बिन कर रहे हैं तो सोल्डरिंग ग्रीस अथवा सोल्डरिंग पेस्ट को सोल्डर जॉइंट पर रखें। पदार्थ के अनुसार सोल्डर जॉइंट को 50 से 120 सेकेंड के लिए गर्म करें। सोल्डर लगाएं सोल्डर वर्क पीस के तापमान से पिघलना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर सोल्डर जॉइंट ठण्डा होने पर फ्लक्स को निकाल दें।

देखभाल एवं सर्विस**देखभाल एवं सफाई**

► सभी कार्यों से पहले पवार टूल में लगे केबल द्वारा प्लग निकले।

► अच्छी तरह काम करने के लिए और सुरक्षा के लिए, पवार टूल एवं वेंटिलेशन स्लॉट्स को साफ़ रखें।

जब स्पेअर पुर्जों की कनेक्शन लाइन आवश्यक हो तो, इसे Bosch या Bosch पावर टूल के अधिकृत ग्राहक सेवा कर्मचारी द्वारा करना चाहिए, ताकि सुरक्षा खतरों को टला जा सके।

ग्राहक सेवा एवं उपयोग सलाह

ग्राहक सेवा आपके उनके उत्पादों तथा देखभाल के विषय में आपके सवालों का जवाब देगी। स्फोटक चिन्ह तथा स्पेअर पार्ट्स के बारे में अधिक जानकारी आपको मिल सकती है

www.bosch-pt.com

Bosch के उपकरण सलाहकार संघ हमारे उपकरणों तथा उनके एक्ससेसरीज के विषय में आपकी समस्याओं का समाधान करने में सहयोग कर सकते हैं।

अपने पत्राचार तथा स्पेअर पुर्जों के ऑर्डर पर उत्पाद नेमप्लेट पर दर्ज 10 अंको वाला उत्पाद क्रमांक अवश्य प्रदान करें।

भारत

Bosch सेवा केन्द्र
69, हबीबुल्लाह रोड, (PSBB स्कूल के पास), टी. नगर
चेन्नई 600077

फ़ोन: (044) 64561816

Bosch सेवा केन्द्र रिच्यमूक

85A, पंचकुई रोड

नई दिल्ली 110001

फ़ोन: (011) 43166190

Bosch सेवा केन्द्र

79, क्रिस्टल बिल्डिंग, डॉ. एनी बेसेंट रोड, वर्ली

मुंबई 400018

फ़ोन: (022) 39569936 / (022) 39569959 /

(022) 39569967 / (022) 24952071

निपटान

पावर टूल, एक्ससेसरीज और पैकेजिंग का निपटान पर्यावरण के अनुकूल होना चाहिए।

घर के कचरे में बिजली उपकरणों के निपटान नहीं करें!



परिवर्तन के अधीन।